

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 26.11.2020**

दिनांक 25.11.2020 को थाना क्षेत्र के ग्राम पटनीजंगल की निवासिनी श्रीमती अप्साना खातून पत्नी अखतर अली नि0 ग्राम पटनी जंगल थाना व जिला सिद्धार्थनगर को सास-ससुर द्वारा मारने पीटने प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में वीडियो वायरल हो रहा था जिस पर थाना को0 सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर ससुर शाह आलम पुत्र रियासत अली व सास कैसरुम पत्नी शाह आलम नि0गण पटनी जंगल थाना व जिला सिद्धार्थनगर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/20 धारा 323/498ए भादवि पंजीकृत करते हुए अभियुक्तगण की नियमानुसार गिरफ्तारी की गयी।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 26.11.2020**

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

01- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 अली पुत्र कल्लू निवासी कस्बा व थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 03 अदद साइकिल व कपड़ा कीमती 366150/-रुपये बरामद कर 11 कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0360/2020 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ गंगेश पुत्र रामबिहारी निवासी जीवा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

03- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0299/2020 धारा 307 भादवि0 व मु0अ0सं0- 0300/2020 धारा 30 शस्त्र अधि0 में वांछित अभियुक्त धर्मवीर पुत्र बहायू धोबी निवासी मिझूनिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

04- थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0161/2020 धारा 147,148,149,352,452,323, 504,506,356 भादवि0 में वांछित अभियुक्तों 1-वीरेन्द्र कुमार पुत्र जमुना प्रसाद 2-विशेष कुमार उर्फ गुड्डू 3-जितेन्द्र कुमार, 4-आशीष कुमार उर्फ सिकन्दर पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी कोल्हुई थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर हा0मु0 सूपाराजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थ नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

05- थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0115/2020 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ गंगेश पुत्र रामबिहारी निवासी जीवा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगरसजमुनिशा पत्नी स्व0 तौलन साकिन बर्डपुर नं0 06 टोला तिवारीपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**प्रेस नोट दिनांक 26.11.2020****06 अभियुक्त गिरफ्तार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अरुणचंद्र, पुलिस उपाधीक्षक बांसी के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

आज दिनांक 26.11.2020 को थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर आलोक कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में मु.अ.सं. 162/2020 धारा 147/149/323/504/506/308 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मिथलेश 2. वेलास उर्फ राम वेलास 3. गणेश शंकर 4. विन्देश 5. शैलेश पुत्रगण महातम 6. पंकज पुत्र गणेश समस्त साकिनान टिकरिया थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को मुखबीर की सूचना पर ग्राम टिकरिया में समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा. न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

उ.नि. रमेश कुमार यादव

हे0का0 तारकेश्वर यादव

हे0का0 रामनरेश यादव

का0 गोवर्धन गुप्ता

का0 अन्नु मलिक

**प्रेस नोट दिनांक 26-11-2020**

दिनांक 26-11-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्फटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-26-11-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 374 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 241 वाहनों का चालान कर कुल 2,47,300/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया ।